

आदमी से
प्यार
कर
लो

८११.८
जग/आ

॥॥॥

१२५